



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 ज्येष्ठ 1940 (श10)  
(सं० पटना 457) पटना, बुधवार, 23 मई 2018

---

सं० अ०स०क० 07-15(नई योजना)-03/2017-327  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

15 मई 2018

विषय:- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु 'अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना' एवं मार्गदर्शिका की स्वीकृति के संबंध में।

अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग विभिन्न कारणों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, महिला एवं बाल विकास आदि क्षेत्रों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

2. केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास, वक्फ संपत्ति के रख रखाव, छोटे उद्यम, बुनकर एवं अन्य कारीगर समूह के कल्याण तथा महिलाओं/ बालिकाओं के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना एवं योजना की मार्ग-निर्देशिका तैयार की गई है जिसपर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

3. यह योजना शत-प्रतिशत राज्य योजना है जिसका क्रियान्वयन संलग्न मार्ग-निर्देशिका के अनुसार किया जाएगा।

4. योजना का संचालन निम्नांकित बजट शीर्षों के अंतर्गत प्रावधानित राशि से किया जाएगा :-

- (i) मुख्य शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 102-आर्थिक विकास, उपशीर्ष 0101- अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना।

- (ii) मुख्य शीर्ष 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 04—अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 277—शिक्षा, उपशीर्ष 0105—अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना।
- (iii) मुख्य शीर्ष 4225— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—04 अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 277—शिक्षा, उपशीर्ष 0102— अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/ पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
मो० एस० आई० फैसल,  
विशेष सचिव—सह—निदेशक।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 457-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>